

HB LEASING AND FINANCE CO. LTD.

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana) Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbleasing.com Website: www.hbleasing.com, CIN:L65910HR1982PLC034071

28th August, 2021

Listing Centre

The Listing Department BSE Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Company Code: 508956

Sub: - Copies of Newspaper Advertisement - Information regarding 38th Annual General Meeting (AGM) to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir / Madam,

In compliance with MCA Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, please find enclosed copies of Newspaper Advertisements published in Business Standard (English & Hindi) dated 28th August, 2021, providing Information regarding 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Thursday, 30th September, 2021 at 3.00 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The above may please be treated as compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Part A of Schedule III of said Regulations.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbleasing.com

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you, Yours faithfully,

For HB Leasing and Finance Company Limited

SONALI SHARMA

(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: As Above

THE ASKA COOPERATIVE SUGAR INDUSTRIES LTD.

P.O. Nuagam (Aska) - 761111, Ganjam District, Odisha Ph.No.06822-273464, email:askasugar@yahoo.co.in

Website: www.askasugar.com

TENDER CALL NOTICE

for (1)Dismantling Fabrication, Erection & Painting of OR-529 Boile

M.S Chimney & its accessories (2) Fire-crete super 3/4" lining upto

9 meter from bottom inside chimney works at the Aska Cooperative

Sugar Industries Ltd, Nuagam, Aska. Interested tenderers can download

tender form from our website: www.askasugar.com. The cost of tende

paper is Rs.1000/- non-refundable including GST. Filled tender forms

can be sent by Speed post/Registered post/Courier to the Managing

HB PORTFOLIO LIMITED

CIN: L67120HR1994PLC034148

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

E-mail: corporate@hbportfolio.com, Website: www.hbportfolio.com

Ph.: + 91-124-4675500, **Fax No.**: + 91-124-4370985

DRMATION REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE

Tenders are invited from experienced and reputed contractors

which should reach the office latest by dated.15.09.2021 by **5.00PM**, Interested parties may visit our website: www.askasugar.com for details of the tender call notice.

Managing Director

Dt.27.08.2021

Managing Director

Business Standard MUMBAI EDITION Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private

Management

Development

dustrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Nav Mumbai, 400708 and M/s. Dainik Bhaskar, Plot no. 10.11, Sector B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P)-462023. & Published at H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai- 40001

imited and Printed at M/s. Dangat Medi

Private Limited 22 Digha M LD C TTC

Editor: Shyamal Majumdar

RNI No. MAHENG/2013/53717 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Fax: +91-11-23720201

Fax: +31-11-23/20201
For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & 1/3, Building H, Paragon Centre,
One Rida Contrain Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs bs@bsmail.in

or sms. REACHBS TO 57575' Overseas subscription: (Mumbai Edition Only)

One year subscription rate by air mail INR 51765 : USD 725

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased pictur of developments in the markets, the corporate work and the government. Actual developments can turn ou to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard standards's control and knowledge. Business Standards todes not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of report and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Susiness Standard does not associate itself with o stand by the contents of any of the advertisement accepted in good faith and published by it. Any claim elated to the advertisements should be directed to the advertises recogned.

ilication, reproduction, transmission or redisseminatio of the contents, in any form or by any means, is pro hibited without the prior written consent of M/ Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invit civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

Development

Chairman, Members of the Board of Governors and Faculty

Convocation 2021

cordially invite all our Alumni, Corporate Partners and Associates to

on Sunday, August 29, 2021 at 11:00 AM Streaming from MDI Gurgaon & MDI Murshidabad

> Chief Guest Shri Sunil Kant Munjal Chairman, Hero Enterprise

MDI Gurgaon Campus



Management Development Institute

Gurugram: Mehrauli Road, Sukhrali, Pin-122007, Ph: 0124-4560000, 4560119 Website: www.mdi.ac.in

Murshidabad: Sakim-Katni, Raghunathganj Pin-742235, Ph: 09674727164 / 09674757164 Website: www.mdim.ac.in

Please visit: www.mdi.ac.in / www.mdim.ac.in for joining the streaming of Annual Convocation 2021

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Letter No.(Engg)/775

Dear Members The 26th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Portfolio Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 11:00 A.M. through Video Regarding ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 26th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company, www.hbportfolio.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited a www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM

Members who have not registered their e-mail address with the Company Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21 and updation of Bank

Physical Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Holding Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private imited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving Licence, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21.

For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account Number (ii) Bank Name and Branch Address (iii) MICR Number (iv) IFSC Code (v) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank Statement duly attested by the Bank.

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Holding Depository Participants (DP).

For HB Portfolio Limited

Date: 27.08.2021 Place : Gurugram AJAY KUMAR MOHANTY (Company Secretary) M. No.: FCS-7133

B HB STOCKHOLDINGS LIMITED

पंजाब नैशनल् बैंक़ 🔘 punjab national bank

Technical Cell, Credit Division, Head Office, Plot No. 4,

Sector-10, Dwarka, Delhi-110075

Applications are invited from reputed consultants/organizations

possessing necessary expertise for empanelment as Outside

Consultants for conducting Techno Economic Viability (TEV)

Studies. The empanelment of Outside TEV Consultant shall be

based on merits and the Bank shall have the right to reject any

application without assigning any reason. Interested consultants will

submit their application within one month from the date of publication

of the advertisement. For further details, please visit our website

Assistant General Manager

www.pnbindia.in under "Public Notice"

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985 E-mail: corporate@hbstockholdings.com, Website: www.hbstockholdings.com

INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

The 34th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Stockholding Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility rithout the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 ssued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR. P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 34th AGM and Annual Repor for the Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those embers, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company at www.hbstockholdings.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesse: set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address vith the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as pe nstructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21 and updation of Bank Account Details:

Physical Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21.

For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account Number (ii) Bank Name and Branch Address (iii) MICR Number (iv) IFSC Code (v) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank Statement duly attested by the Bank.

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Holding | Depository Participants (DP)

For HB Stockholdings Limited

RUPESH KUMAR Date: 27.08.2021 (Company Secretary) Place : Gurugram M. No.: ACS-43104

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Compar

be held on Thursday, September 23, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")

with Visual Manager ("ON W") to tense at the businesses refiger in the Natice conversion by SCH. Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business specified in the Notice convening the AGM of the Company. The Company has sent the Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 along with the AGM Notice and E-voting procedure on August 27, 2021 through electronic means to Members whose email addresses were registered with the Company/Depositories in compliance with the upplicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with the Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred as "MCA Circulars") and Securities Exchange Board of India ("SEBI") dated May 12, 2020 and January 15, 2021 ("SEBI Circulars"). Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies

NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LIMITED

CIN: L45200MH1984PLC034789

Regd. Off.: 507, Laxmiplaza, Laxmi Industrial Estate, Newlink Road, Andheri (W),Mumbai - 53,
Maharashtra, Tel: 022-26335583/84; Email: netlink@easy2source.com; Web: www.nsil.co.in

(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Thursday, 23rd September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 36th AGM of the

Company.

In Compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretaries of India on General Meetings (SS-2) issued by the institute of Company Secretaries of India, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote through electronic means through e-voting services of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The details proxusant to actar as under:

Members holding shares either in physical form or in dematerialization form, as on the cut-off date

i.e., 17 September, 2021 are ("eligible Members"), to exercise their rights to vote by remote e-voting and e-voting system in the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Company;
The remote e-voting will commence on 19th September, 2021 at 9.00 a.m.;

The remote e-voting will end on 22nd September, 2021 at 5.00 p.m.
The remote e voting module shall be disabled for voting thereafter and once the vote on a resolution i cast by member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
The member can participate in AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting

but shall not cast their vote again in the AGM. The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the

AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting an are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through the e-voting system during the Only a person whose name is recorded in the register of members or in the register in beneficial owner.

only a person whose name is recorded in the legislate of intellines of in the register in beneficial owner maintained by Depositories as on out off price date i.e. September 17, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email address with

the Company / Depository or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date, i.e. Friday, September 17, 2021, such member may obtain the User ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote. In relation to updating email address, bank details and mobile number electronically on temporar basis please write email to our RTA i.e. Adroit Corporate Services Pvt. Ltd on its email id i.e.

info@adroitcorporate.com and for further details on updation of email address, bank details and mobile number you may refer the Notice of the AGM

The Annual report for financial year 2020-21 along with the notice of AGM is available on the website of the company www.nsii.co in and the website of stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com, and also on the website of the NSDL at evoting@nsdl.co.in

case of any queries/grievances relating to e-voting the Members/Beneficial owners may contact NSDL in evoling@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager-NSDL at mitv@nsdl.co.in / 022-24994360 or contact Mr. Anubhav Saxena, Assistant Manager-NSDL at snubhavS@nsdl.co.in / 022-24994835 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Email: By the order of Board of Directors allavid@nsdl.co.in, Tel: 022-24994545.

Place: Mumbai Whole Time Director

THE RAMESHWARA JUTE MILLS LIMITED

CIN: L17119WB1935PLC046111 Registered Office: Birla Building, 8th Floor, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001 Phone: +91 33-22109455

Website: www.rameshwarajute.com; E-mail: sharedepartment@rjm.co.in

PUBLIC NOTICE

This is to inform that in view of the prevailing COVID-19 pandemic, the Annual General Meeting ('AGM') of The Rameshwara Jute Mills Limited ('the Company') will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Tuesday, the 28th September, 2021at 3:00 p.m. Indian Standard Time (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder. read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and January 15 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') to transact the businesses set out in the Notice convening the said AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice and the Annual Report 2020-21 will be available on the website of the Company at www.rameshwarajute.com, on the website of The Calcutta Stock Exchange Limited at www.cseindia.com and on the website of Central Depository of Services (India) Limited ('CDSL') at www.evotingindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided in the Notice of the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to send an e-mail to the Company at sharedepartment@rjm.co.in mentioning the Name of Member(s), Folio No., Email Id, Mobile No. along with the self-attested copy of PAN card and Aadhaar Card on or before 5:00 p.m. (IST) on 31st August, 2021 to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically as well as the login id and password for e-Voting.

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ('remote e-Voting') of CDSL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through e-Voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Voting/e-Voting during the AGM will be provided in the Notice.

The Notice of the AGM are being sent to the members on their registered email addresses in due course

For The Rameshwara Jute Mills Limited

Privanka Arora **Company Secretary**

NOTICE OF 62nd ANNUAL GENERAL MEETING

ऑयल इंडिया लिमिटेड

hereby given that the 62[™] Annual General Meeting ("AGM") of the members of Oil India Limited ("Company") will be held on Saturday, the 25th day of September, 2021 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice of AGM, being circulated separately. In view of the continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its circular dated January 15, 2021, have permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC or OAVM.

In compliance with the MCA & SEBI circular(s), Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories as on "cut-off date" (to be decided by the Company). Members may please note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website https://www.oil-india.com, the websites of the Stock Exchanges viz. i.e. www.bseindia.com [BSE Limited] and www.nse-india.com [National Stock Exchange of India Limited] and on the website of NSDL (agency for providing the E-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013. Th Instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. The Company is providing E-voting facility (Remote e-voting) to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of e-voting during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM.

In case of Member (s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below mentioned instructions to register their e-mail addresses for obtaining Integrated Annual Report 2020-21 and login details for e-voting.

1) In case shares are held in physical mode: Provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), and Aadhaar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@oilindia.in. 2) In case shares are held in demat mode: Provide DPID-CLID (16 digits DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of

Aadhar Card) to their respective Depository Participant. Members are requested to intimate Bank Mandate, including any changes thereof, for receiving Dividends:

. In case of shares held in electronic form to their Depositor Participant

ii. In case of shares held in physical form to the Company/RTA, KFir Technologies Private Limited

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact Ms. Pallavi Mhatre (Manager) or Ms. Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in.

For Oil India Limited

(A.K. Sahoo) Company Secretary ACS 12385 Place: Noida Date: 27.08.2021

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area Sector 32, Gurugram-122001, Haryana **Ph.**: + 91-124-4675500, **Fax No.**: + 91-124-4370985 E-mail: corporate@hbleasing.com, Website: www.hbleasing.com

INFORMATION REGARDING 38TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Dear Members,

The 38th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Leasing and Finance Company Limited ("the Company") will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 03:00 P.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 ssued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1. CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of ndia (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote e-voting before AGM and e-voting during AGM.

In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 38th AGM and Annual Repor for the Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company, www.hbleasing.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21 and updation of Bank

Physical Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Holding | Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card, Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21. For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account

Number (ii) Bank Name and Branch Address (iii) MICR Number (iv) IFSC Code (v) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank Statement duly attested by the Bank. Please update e-mail address / Bank Account Details with your

Holding | Depository Participants (DP). For HB Leasing and Finance Company Limited

Date: 27.08.2021 Place : Gurugram

(Company Secretary) M. No.: ACS-59728 dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the members within thirty days from the date of AGM.

Place : Gurugram

Date: 27th August, 2021

SONALI SHARMA

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Read, Office: 2nd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurugram, Harvana -122002 Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698, Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

NOTICE

. Notice of AGM: Notice is hereby given that in view of the continuing risk of COVID-19 pandemic, the 62nd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at 11.00 A.M. on Monday, the 27th September 2021 through Video Conferencing ("VC"). Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated 13 January 2021 read with circulars dated 5 May 2020, 13 April 2020 and 8 April 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated 15th January 2021 read with circular dated 12th May 2020 vide which MCA and SEBI have permitted the holding of Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

n compliance with the aforesaid circulars Annual Report for the financial year 2020-21, comprising the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended 31st March 2021, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only through email to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.mycemco.com and websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. It your email ID is already registered with the Company or Depository Participant login details for e-voting are being sent on your registered email address. n case you have not registered your email address with the Company/Depository

Participant, please follow below instructions to register your email-id for obtaining Annual

Report and login details for e-voting:

Physical holding | Send a request to the RTA at irg@integratedindia.in providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Following additional details may be provided in case you wish to update details of your bank account for facilitating direct credit of Dividend for FY2020-21 in your bank account:

a) Name of the Bank and branch address. Type of Bank Account Bank Account Number after implementation of Core Banking

Solution. d) 9 digit MICR Code Number.

11 digit IFSC Code.

f) Scanned copy of a cancelled cheque bearing the name of the first shareholder. Please contact your Depository Participant (DP) for registering your

email address and updating bank account details in your demat account, as per the procedure advised by your DP. 2. Record Date for AGM and Dividend: The Company has fixed Monday, 20th September 2021 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the financial year 2020-21 and attend the AGM. The

> For HeidelbergCement India Ltd. Rajesh Relan

Place : Gurugram Legal Head & Company Secretary

Date : 27.08.2021

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L99999HR1994PLC034146 Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbestate.com, Website: www.hbestate.com INFORMATION REGARDING 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Dear Members

Place: Kolkata

Date: 27th August, 2021

The 27th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Estate Developers Limited ("the Company") will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set out in the notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide the facility of attending AGM through VC / OAVM, Remote

e-voting before AGM and e-voting during AGM. In accordance with the aforesaid Circular(s), the Notice of 27th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those members, whose e-mail address is registered / available with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will be available on the website of the Company, www.hbestate.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

The members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting / e-voting during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode and Members, who have not registered their e-mail address with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members who have not registered their e-mail address with the Company Depository Participant(s) are requested to register their e-mail address as per Instructions given below for the purpose of obtaining e-voting User ID & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21 and updation of Bank

Physical Please send scanned copy of duly signed request letter to Company's Holding Registrar and Share Transfer Agent (RTA), RCMC Share Registry Private Limited through an e-mail at investor.hb@rcmcdelhi.com providing Folio No., Name of Shareholder along with scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested scanned copy of the PAN Card and any one of the following documents viz., Aadhaar Card, Driving License, Voter Card,

> & Password, Notice of AGM and Annual Report 2020-21. For updation of Bank Account Details, please provide (i) Bank Account Number (ii) Bank Name and Branch Address (iii) MICR Number (iv) IFSC Code (v) Cancelled cheque leaf or copy of Bank Passbook / Bank Statement duly attested by the Bank

Passport or Utility bill in support of the address proof of the Member as

registered with the Company for the purpose of obtaining e-voting User ID

Please update e-mail address / Bank Account Details with your Holding Depository Participants (DP).

For HB Estate Developers Limited

RADHIKA KHURANA (Company Secretary) M. No.: A-32557

ा एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड CIN: L65910HR1982PLC034071

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया सैक्टर-32, गरूग्राम-122001, हरियाणा फोन : + 91-124-4675500 फेक्स न : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbleasing.com वेबसाइट : www.hbleasing.com

ोडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्य से आयोजनार्थ निर्धारित 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), **बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 03.00 बजे** एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और

प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित १३ अप्रैल. २०२०. परिपत्र संख्या २० / २०२० दिनांकित ०५ मई. २०२० तथा परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न संख्या सेबी /एचओ /सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर /पी / 2020 79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा परिपन्न संख्या सेबी /एचओ /सीएफडी /सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (एतदपश्चात सामृहिक रूप से परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दौरान हैं—वीटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

उपरोक्त परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में, 38वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल कम्पनी की वेबसाइट www.hbleasing.com, स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग / एजीएग के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्टॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा और एजीएम में ई-वोटिंग

के माध्यम से वोट डालने हेत् विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार पंजीकृत करवा लें तथा बैंक खाता विवरण अद्यतन करवा लें :

कृपया विधिवत हस्ताक्षारित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आस्टीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री भौतिक प्राइवेट लिमिटेड को investor.hb@rcmcdelhi.com पर ई—मेल के माध्यम से फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, वैध शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रति (फ्रांट और बैंक), पैन कार्ड तथा निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज जैसेकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा यूटीलिटी बिल की स्कैन की गई रव-सत्यापित प्रति, कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के तौर पर, ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रेषित करें।

बैंक खाता विवरण अद्यतन करवाने के लिए कृपया (i) बैंक खाता विवरण (ii) बैंक नाम तथा शाखा पता, (iii) एमआईसीआर नंबर (iv) आईएफएससी कोड, (v) निरस्त चैक पन्ना अथवा बैंक पासबुक की प्रति / बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित बैंक विवरण।

कृपया अपना ई–मेल पता / बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्र (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं। धारण

> कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड हस्ता./-सोनाली शर्मा

तिथि : 27.08.2021 (कम्पनी सचिव) स्थान : गुरूग्राम M. No.: ACS-59728

एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936 पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,

सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट : www.hbstockholdings.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधान एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी, 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (एतदपश्चात सामृहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कोन्क्रेन्सिंग ("वीसी") अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉॅंजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

उपरोक्त परिपन्न(त्रो) के अनुपालन में, 34वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई–मेल . गता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीबद्ध/उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com, स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा और एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेत विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी जाएगी

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार पंजीकृत करवा लें तथा बैंक

भौतिक कृपया विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.hb@rcmcdelhi.com पर ई-मेल के माध्यम र फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, वैध शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड तथा निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज जैसेकि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा यूटीलिटी बिल की स्कैन की गई स्व–सत्यापित प्रति, कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के तौर पर, ई—वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रेषित करें।

बैंक खाता विवरण अद्यतन करवाने के लिए कृपया (i) बैंक खाता विवरण (ii) बैंक नाम तथा शाखा पता, (iii) एमआईसीआर नंबर (iv) आईएफएससी कोड. (v) निरस्त चैक पन्ना अथवा बैंक पासबुक की प्रति ∕ बैंक द्वारा विधिवत . , मत्यापित बैंक विवरण।

कृपया अपना ई–मेल पता / बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं। डीमैट धारण

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड हस्ता./ रूपेश कुमार (कम्पनी सचिव) तिथि : 27.08.2021 स्थान : गुरूग्राम M. No.: ACS-43104

कर्जदाता (ओं) का नाम

(Ų)

3. कविता

1. मेसर्स एनसीआर बिल्डर

(श्री. प्रतोष कुमार शर्मा

(श्री.अमित शर्मा के निदेशक द्वारा)

(श्री अंकित शर्मा के निदेशक द्वारा)

पादवेट लिमिटेड

के निदेशक द्वारा)

2. मेसर्स एनसीआर फैशन

प्राइवेट लिमिटेड

3. मेसर्स शर्मा कलेक्शन

4. प्रतोष कुमार शर्मा

5. नीरू शर्मा

6. अमित शर्मा

7. अंकुर शर्मा

8. अंकित शर्मा

10. सुनिल कुमार शर्मा

11. मेसर्स प्रतोष कुमार शर्मा

एचयएफ (श्री. प्रतोष कमार शर्मा

स्थान : दिल्ली / गौतम बुध्द नगर / गाज़ियाबाद

9. कैलासो

2. उमेश

💶 एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148 पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाण

फोन: + 91-124-4675500, फेक्स नं. : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यग से आयोजनार्थ निर्धारित 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में सूचना

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक "एजीएम"), **बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे**, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानो . एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के साथ पितत कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सर्कलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (एतद्पश्चात सामूहिक रूप से "परिपत्र" संदर्भित किए गए हैं) के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेन्सी के रूप में नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं अनुबंधित की हैं।

. उपरोक्त परिपत्र(त्रो) के अनुपालन में, 26वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 हेत वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्टॉनिक विधि से उन सदस्यों को भेजी जाएगी. जिनका ई—मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com, स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com प

सदस्यों को एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा। भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग यूजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल पता नीचे दिए अनुदेशों के अनुसार पंजीकृत करवा लें तथा बैंक खाता विवरण अद्यतन करवा लें

कृपया विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति कम्पनी के भौतिक रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए), आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को investor.hb@rcmcdelhi.com पर ई-मेल के माध्यम से फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, वैध शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट और बैक), पैन कार्ड तथा निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज जैसेकि ्र आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर कार्ड, पासपोर्ट अथवा यूटीलिटी बिल की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति कम्पनी के साथ पंजीकत सदस्य के पता प्रमाण के तौर पर, ई—वोटिंग युजर आईडी एवं पासवर्ड, एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ प्रेषित करें।

बैंक खाता विवरण अद्यतन करवाने के लिए कृपया (i) बैंक खाता विवरण (ii) बैंक नाम तथा शाखा पता, (iii) एमआईसीआर नंबर (iv) आईएफएससी कोड, (v) निरस्त चैक पन्ना अथवा बैंक पासबुक की प्रति / बैंक द्वारा विधिवत

. त्यापित बैंक विवरण कृपया अपना ई–मेल पता / बैंक खाता विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स डीमैट (डीपी) के पास अद्यतन करवाएं।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड अजय कुमार महान्ति तिथि: 27.08.2021 स्थान : गुरूग्राम M. No.: FCS-7133

श्रीराम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकिन स्ट्रीट, चेन्नई—600001 प्रधान कार्यालयः लेवल—3. वोक्खार्डट टॉवर्स, ईस्ट विंग, सी—2 ब्लॉक, बांद्र र्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई–400051

कब्जा सूचना

जबिक श्रीराम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदार को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उक्त मांग सूचना में उल्लिखित राशि को चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार और सर्व सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एसएचएफएल के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियमावली के तहत नीचे वर्णित बंधक संपत्तियों का 27 अगस्त, 2021 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

| कर्जदार का नाम | मांग सूचना के अनुसार | <u> </u> | | |
|--|---|---|--|--|
| और पता | बकाया राशि | संपत्ति का विवरण | | |
| श्रीमती ऊषा कंवर | ₹. 13,85,176/- | प्लॉट नं. 34, देव नगर, | | |
| पत्नी मंगू सिंह, | ऋण खाता सं. | नांगल जैसा बोहरा, जयपुर, | | |
| श्री तेज सिंह राठौर | SBTHJIPR0000528 में + | राजस्थान स्थित संपत्ति | | |
| पुत्र श्री मंगू सिंह, | रु. 10,75,785∕− | आवासीय मकान, माप | | |
| श्री भंवर मनोहर सिंह | ऋण खाता सं. | 133.33 वर्ग गज के समस्त | | |
| पुत्र श्री मंगू सिंह, श्रीमती सीमा राजपूत | STUHJIPR0000529 में = रु. 24,60,961 /— (रुपये चौबीस लाख साठ हजार नौ सौ इकसठ मात्र) दिनांक 19/04/2021 को नियत एवं देय यहाँ उल्लिखित आगे की ब्याज और प्रासांगिक व्ययों, लागतों आदि सहित | भाग व खंड सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट नं. 32, पश्चिमः रोड, उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 35 | | |

रतदद्वारा सर्व साधारण को आगाह करने के लिए यह भी सूचित किया जाता है कि एसएचएफएल उपरोक्त अचल संपत्ति का विधिसंगत सांकेतिक कब्जा रखता है और कर्जदार या अन्य कोई व्यक्ति इस सूचना प्राप्ति के बाद बिना एसएचएफएल की लिखित सहमति के इस सूचना में संदर्भित उपरोक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति का बिक्री, पट्टे या अन्य किसी डील से हस्तांतरित / स्वत्व-अंतरण नहीं करेंगे।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : जयपुर श्रीराम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 27 08 2021

HERO HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नम्बर : 1800 212 8800, : customer.care@herohfl.com, वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | U65192DL2016PLC30148 सम्पर्क पता : बिल्डिंग नं. ०७.दूसरी मंजिल, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

माँग सचना वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनयम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकार्र होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले हीं अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेल या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सचना/अं ां उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगता-करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी ध और अधोहस्ताक्षरों के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्यक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पन: कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधि प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मुख नीचे वर्णि जारानाच ता निवास का विकास के स्वास कार प्रशिष्मों का कथित दायित्वायारी यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पटित तथा अन्य दस्तावेजों(लेखांते, यदि कोई हो द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित एटएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकार पुनर्भृगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा एचएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभू आस्ति(यों) बन्धक रखी गयी हैं।

निम्नलिखित तिथि माँग सचना की

दायित्वधारी(यों) /विधिक

ऋण खाता सं.

| | उत्तराधिकारी(यों) ⁄ विधिक प्रतिनिधि(यों) | तक कुल बकाया | तिथि | |
|--|---|---------------------|--------------------|--|
| | के नाम | राशि (रु.)* | एनपीए की तिथि | |
| | हिमांशु शुक्ला, नागेन्द्र पुत्र विनय प्रकाश, निधि | ₹. 2008684/- | 17-अगस्त-2021 | |
| 9000004840 | शुक्ला | 12.08.2021 तक | 8-जुलाई-21 | |
| प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : आवासीय मकान नं. 16बी, खसरा नं. 228 | | | | |
| शिवपुरम, निकट इन्द्रागरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश –201015 (माप क्षेत्रफल 60 वर्ग गज अर्थात 50.16 वर्ग मीटर). सीमाप | | | | |
| | ड पूर्व : प्लॉट नं. 16 ए प्रीतम चन्द गुप्ता, दक्षि | ण : खाडकू तथा रामकु | मार का खेत, पश्चिम | |
| : प्लॉट नं. 17 | | | | |
| 2.HHFDELHOU | जितेन्दर कश्यप, प्रीति कश्यप | रु. 1248371/− | 19-अगस्त-2021 | |

रु. 12483/1/- 12 जाराज्य 2-1 12.08.2021 तक 8-जुलाई-21 19000001803 प्रतिभत आस्तियों ∕अचल सम्प्रतियों ∕बंधक सम्प्रतियों का विवरण : फ्लैट नं. एफएफ-2. प्रथम तल. सामने की ओर तता पूरा जाताचार्य जाताचार चताचारा याच्या कर सत्याचार का जिस्तरण : तर्राट : . ९२१९७२ : २, अचन १०११ ना अर्जा जा एरआईबी, छन के अधिकार रहित, प्लॉट नं. बी-4/13, डीएलएफ अंकुर विहार, तहसील-लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित (क्षेत्रफल माप 37.16 वर्ग मीटर) सीमाएँ : उत्तर : प्लॉट नं. बी 4/12पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण लॉट नं. बी 4/14. पश्चिम : 9 मीटर चौडी रोड 3.HHFDELHOU मनीष कुमार, शोभा पुत्र वीर बहादुर, पूर्णिमा **হ.** 1759433/

12.08.2021 तक 8-जुलाई-21 0000007876 पत्नी अनिल राय ्र तिभत आस्तियों∕अचल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण ∙ बिल -अप फ्रीहोल्ड पुर्वी भाग बार्यो ओर दिनीय त øत के अधिकार रहित सम्पत्ति सं. एफ-77, खसरा नं. 665, ग्राम बसाई दारापुर, कॉलोनी सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-110015 स्टेल्ट फ्लोर में एक स्कटर कॉमन पार्किंग स्पेस (क्षेत्रफल माप 50 वर्ग गज, 150 वर्ग गज में से) सीमाएँ : उत्तर : तीट चौड़ी गली; पूर्व : मकान नं. एफ – 76; दक्षिण : 15 फीट चौड़ी गली;पश्चिम : मकान नं. एफ– 78 4.HHFDELHOU मुनेश कुमार, अनीता कुमारी र 3951629/-

12.08.2021 तक 8-जुलाई-21 प्रतिभूत आस्तियों∕अचल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण : प्लॉट सं. 122, ब्लॉक ए2, कोंडली पुनर्वास कॉलोर्न नई हिल्ली-110096 (माप क्षेत्रफल) 26.00 वर्ग मीटर) सीमाएँ : उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, पूर्व : 121, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : 123 पमोद कमार शर्मा. सविता शर्मा. चैतन्य शर्मा. 5.HHFDELLAP1 रु. 9091510/-19-अगस्त-2021 12.08.2021 तक 8-जुलाई-21 वशिष्ठ दत्त शर्मा, मंजू शर्मा

तिभूत आस्तियों∕<mark>अचल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण</mark> : मद सं. 1 : प्लॉट नं. ए−20 पर दुकान, खसरा न 101 तथा 402 इन्द्रापरा आबेद. ग्राम धरोटी खर्द. परगना लोनी. तहसील और जिला गाजियाबाद-201102 (क्षेत्रफल माप 19.0 क्या तथा क्या क्या इन्हापुरा आबंद, ग्राम क्यारा खुद, पराना लाना, तहसाल आर गला गाल्याबाद-2011घट (ब्रिजफल मान 19.09) वर्ग मीटर), सीमार : उत्तर : क्यारिक पर्लीट का श्रेष भाग, पुर्व: -मे नो हेत, दक्षिण : उत्तम की सम्मित, प्रिचम : क्रीयर का को श्रेष भाग. मद सं. 2 : प्लॉट नं. ए-20 पर मकान, खसरा नं.-401 तथा 402 इन्द्रापुरी आबंद, ग्राम धरोटी खुर्द, परगना लोनी. तहसील और जिला गाजियाबाद-201102 (माप क्षेत्रफल 159.16 वर्ग गज अर्थात 133. 08 वर्ग मीटर) सीमाएँ : उत्त कथित प्लॉट का शेष भाग. पर्व : अन्य की सम्पत्ति. दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति. पश्चिम : 12 फीट चौडी गली

19-अगस्त-2021 6.HHFDELHOU राजेश भुटेरिया, गुलाब देवी भुटेरिया, राकेश क 2061096/-12.08.2021 तक 8-जुलाई-21 तिभृत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : प्रथम तल सम्पत्ति सं. एक्स/1898-ए, खसरा न . १५४/८९-७ तथा ५९६/११ गली नं -१० राजगढ एक्सटेंशन गांधी नगर गाम घोंडली इलाका शांहररा नई दिल्ली-११००३१

397/07 प्राची अंग ते हैं। (माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गंग) सीमाएँ : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति का भाग, दक्षिण : अन्य कं सम्पत्ति, पश्चिम : गली नं. 10 7.HHFDELOU संदीप पुत्र रमेश चन्द, कुसुम माता संदीप रु. 106403/ HHFDELIPL 12.08.2021 तक 8-जुलाई-21

्रातिभूत आस्तियों∕अवल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण : बिल्ट अप तृतीय तल निजी फ्लैट नं. 403 पर, पीछे की और खनटनेम्प्र के अधिकार सम्पत्तियों के किल्टा अप तृतीय तल निजी फ्लैट नं. 403 पर, पीछे तान्भूत आस्तवा अध्यल सम्पानचा बचक सम्यानचा वावचरण : ।वाष्ट अप तृताच तता गणा स्तट : , 403 स्, पाष्ट की ओर, छलटिसें के अधिकार सिंहत, सम्पन्ति सं . के पी.ब, खसरा ने, 25/18, ग्राम रंजापुर खुर्द, कोलोंनी मोहन गाईन 11–ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059 विक्रम्य विलेख में उल्लिखित अन्य सुविधाओं सहित (क्षेत्रफल माप 53 वर्ष गज) सीमाएँ : उत्तर : 12 फीट चौड़ी गली, पूर्व : सामने की ओर एलएचएस तथा आरएचएस फ्लैट / रोड 20 फीट चौड़ी दक्षिण : 10 फीट चौड़ी गली, पश्चिम : प्लॉट नं. 17

शिवम कुमार, कमल किशोर, श्वेता कुमारी ₹. 1394692/-**ातिभूत आस्तियों∕अचल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण** : बिल्ट अप सम्पत्ति तृतीय तल (सामने की ओर) छत o अधिकार सहित, सम्पत्ति सं. ई–69 और 70–ए, खसरा नं. 15/9, ग्राम मटियाला, मनसाराम पार्क, ई–ब्लॉक, उत्तम नगर् ाई दिल्ली-110059 (माप क्षेत्रफल 60 वर्ग गज- कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से) सीमाएँ : उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड

सुमित कोहली, हरजीत कौर 19000001550 12.08.2021 तक प्रतिभृत आस्तियाँ अचल सम्पतियाँ त्वंचक सम्पतियाँ का विवरण : मद सं. 1 : दुकान निजी सं. 2, भृतल पर, छत के अधिकार रहित, सम्पति सं. डब्ल्युजेड-4, प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 2, नंगली जालिब, कृष्णा पार्क, गली नं. 11 नई दिल्ली । 10018 (माप क्षेत्रफल) 21,34 वर्ग गज) मद सं, 2 : प्रथम तल छत के अधिकार सहित, सम्पत्ति सं, डब्ल्यजेड-4, प्लॉर 4, खसरा नं. 2, नंगली जालिब, कृष्णा पार्क, गली नं. 11 नई दिल्ली-110018 (माप क्षेत्रफल 21.34 वर्ग गज) सीमाप

अन्य प्लॉट नं. 70, दक्षिण : प्लॉट का भाग, पश्चिम : कथित प्लॉट का भाग

9 HHEDELLAP

ाश्चिम : सम्पत्ति सं. डब्ल्यजेड-4 का भाग (निजी दकान नें. 3) HHFDELHOU संजय कमार, अरुण कमार, सनीता ह. 3095549/- तथा | 17-अगस्त-2021 9000002363 तथा रु. 111504/ 8-जुलाई-21 HHFDELIPI

ातिभूत आस्तियों∕अचल सम्पत्तियों∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. एस-4, द्वितीय तल, एच.आई.जी आरएचएस पूर्वी भाग) छत के अधिकार सहित, प्लॉट नं. सी-109 तथा सी-110, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन - II. ाजारचरपर तूचा नाग छा च जाचकार साता, स्वाट म साना छ। माम ब्रह्मपुरा उमें भीपुरा, पराना न लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005 (कार्ट ब्रेक्सल माम 80 गर्म फीट अर्थात, 74.32 वर्ग मीटर) प्लॉट नं. सी-109 सीमाएँ : उत्तर : प्लॉट नं. 76, पूर्व : प्लॉट नं. सी-108, दक्षिण ıी–111, दक्षिण : 60 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. सी–112

*उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकरिमव ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो एचएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4 तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामों के लिए पूर्ण रूप से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध

कार्यवाही करेगा। कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम के तहत उपर्युव प्रतिभत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिकी, पटटे या अन्य विधि से एचएचएफएल की पर्व लिखित सहमति बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों व ग्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा। कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ह./- अधिकृत प्राधिव

सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

एन.पी.ए. की

बकाया गणि

(板.)(引)

एक सौ उन्नीस और सत्तर पैसा

(रूपये एक करोड पाँच लाख

दस हजार छह सौ अठ्ठाईस और

तेर्दस पैसा मात्र) 05.06.2021

मही/

प्राधिकृत अधिकारी

मात्र) 30.04.2021

रू. 1.05.10.628.23/-

31.03.2021

गिरवी संपत्ति का विवरण

| ж. | () | (/ | , | (, , , , (- , , |
|----|--|---|------------|--|
| 1. | कर्ज खाता कं, HHLVAS00234498 1. लिलत खन्ना 2. विनिता भंबानी 3. प्रोटागोनिस्ट ई सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड (लिलता खन्ना के निदेशक द्वारा) | युनिट नं. 1904, उन्नीसवीं मंजिल, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. जीएच-4 बी पर प्रोजक्ट ला सोलार में, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा, पश्चिम ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध्द नगर-201303, उत्तर प्रदेश. | 31.03.2021 | रू. 39,08,726.10 (रूपये उनतालीस लाख आठ हजार सात सौ छब्बीस और दस पैसा मात्र) 07.05.2021 |
| 2. | कर्ज खाता कं, HHLNOD00459752 1. दयाराम बी मौर्या 2. बिंदू मौर्या | फ्लैट नं. 001, तल मंजिल, टॉवर-डी, संस्कृति प्लॉट नं. जीएच-10 पर, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध्द नगर, उत्तर प्रदेश - 201303 | 31.03.2021 | रू. 42,29,307.85 (रूपये बयालीस लाख उनतीस हजार तीन सौ सात और पचासी पैसा मात्र) 07.05.2021 |
| 3. | कर्ज खाता क्रं. HHLNOD00307937 1. अरविंद कुमार 2. शकुंत | संपूर्ण पहली मंजिल, प्लॉट नं. 258, शक्ती खंड - III, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद - 201014, उत्तर प्रदेश. | 31.03.2021 | रू. 38,55,324.89 (रूपये अड़तीस लाख पचपन हजार तीन सौ चौबीस और नवासी पैसा मात्र) 30.04.2021 |
| 4. | कर्ज खाता कं. HHLNOI00430442 1. प्रदिप कुमार त्यागी 2. पुनम त्यागी | प्लॉट नं. 103, अभय खंड-।, गाज़ियाबाद - 201001, उत्तर प्रदेश. | 31.03.2021 | रू. 34,91,178.35 (रूपये चौंतीस लाख इक्यानबे हजार एक सौ अठहत्तर और पैंतीस पैसा मात्र) 30.04.2021 |
| 5. | कर्ज खाता क्रं. HHLDPR00482655 1. सुनिल कुमार सुतार 2. नितू सुतार | फ्लैट नं. 271-बी, पहली मंजिल, डीडीए एलआईजी फ्लैट, पॉकेट-एफ, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली. | 31.03.2021 | रू. 35,87,327.13 (रूपये पैंतीस लाख सतासी हजार तीन सौ सताईस और तेरह पैसा मात्र) 30.04.2021 |
| 6. | कर्ज खाता क्रं. HLAPDMT00329633 1. विकास लूथरा 2. लता कुमारी लूथरा | प्लॉट नं. 5/6/15, अप्पर तल मंजिल, झेल खुरंजा, गीता कॉलनी, नई दिल्ली - 110031 | 31.03.2021 | रू. 38,00,675.53 (रूपये अड़तीस लाख छह सौ पंचहत्तर और तिरपन पैसा मात्र) 30.04.2021 |
| 7. | कर्ज खाता कं. HHLLAJ00250876 1. नमन मल्होत्रा 2. रीना राना | फ्लैट नं. 1006, दसवीं मंजिल, टॉवर-पी 2 (ग्रैंड पैयोनिया), प्रतिक ग्रैंड सिटी, एनएच-24, सिध्दार्थ विहार, गाज़ियाबाद -201001, उत्तर प्रदेश. | 31.03.2021 | रू. 41,09,999.18 (रूपये इकतालीस लाख नौ हजार नौ सौ निन्यानवे और अठारह पैसा मात्र) 30.04.2021 |
| 8. | कर्ज खाता क्रं. HHLLAJ00225657 1. अभी गर्ग | विला नं. 123, प्लॉट नं.123, विला आनंदधाम, एनएच-58, | 31.03.2021 | रू. 40,35,119.70 (रूपये चालीस लाख पैंतीस हजार |

गाज़ियाबाद -201002, उत्तर प्रदेश

गाज़ियाबाद -201002, उत्तर प्रदेश.

कर्ज खाता क्रं. HLAPRAO00159509 हाऊस नं. 9/225, राज नगर, सेक्टर-9,

के कर्ता दारा) कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

उद्मार लेने वाले(लो) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेनेवाले(लो) के ऋण खाते को कंपनी दारा मीमांकित मापदंदो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि , वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपर्ण बकाया देयताओं का भगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति क मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है ।

कृते इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड

| सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनास्थियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|--|--|--|
| अनु. क्र. | कर्जदाता (ओं) का नाम (ए) | गिरवी संपत्ति का विवरण (बी) | एन.पी.ए. की तारीख (सी) | बकाया राशि (रू.) (डी) | | |
| 1. | कर्ज खाता कं. M023OXVIII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता कं. HHLGRG00408670) 1. मो. सलिम 2. ज़िमी जीन्स (प्रापराइटर मो. सलिम के द्वारा) 3. नज़रा | युनिट नं. एफ-1104, ग्यारहवीं मंजिल, टॉवर-एफ, स्प्रिंग व्यू हाईट्स, गाँव-शहापुर, बमहेता, गाजियाँबाद-201001, उत्तर प्रदेश. | 23.03.2021 | रू. 41,08,385/- (रूपये इकतालीस लाख आठ हजार तीन सौ पचासी मात्र) 07.05.2021 | | |
| 2. | कर्ज खाता कं. T003OXVIII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता कं. HHLNOI00340054) 1. तोशन ढिंगरा 2. अलका ढिंगरा | प्लॉट नं. 28, सेकेन्ड पार्क व्यू, गौर यमुना सिटी, सेक्टर-19, स्पोर्ट सिटी ईस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुध्द नगर-203207, उत्तर प्रदेश. | 23.03.2021 | रू. 37,19,384/- (रूपये सैंतीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) 07.05.2021 | | |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है । उदाार लेने वाले(लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेनेवाले(लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के

भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अधिनियम की धारा 13(2)

के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है । उपर्यक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले (लों) का आहवन करती है कि . वे इस सचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपित को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति का

मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता" सरफेसी अधिनयमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है ।

> सही/ कते दंडियाबल्स एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी प्राधिकत अधिकारी

स्थान: गाजियाबाद / गौतम बध्द नगर



पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001 बोर्ड सं. : +91—11—23736857, वेबसाइट : www.pnbhousing.com शाखा कार्यालय : ए–10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बायपास, भिवाडी–301019

लेंड लाईन 01493-298157, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(2) के साथ पठित नियम 8(1) और वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित परिशिष्ट-IV

ऋण खाता सं.: WFH/CCF/0117/346644 AND WFH/CCF/0117/346647

जबकि अधोहस्ताक्षरी पंजाब हार्ऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की उप–धारा 31(12) के सहपिटेंत नियम 3 के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग में, दिनांक 23 जून 2021 को मांग सूचना जारी करते हुए कर्जदार/सह–कर्जदारों/गारंटरों/सुरक्षा प्रदाता यानी : मेसर्स स्टार रॉयसन लेंडमार्क्स (अपने भागीदारों के द्वारा प्रतिनिधित्व), श्री पुनित रॉय श्री नीतिन कुमार गुप्ता श्री गोल्डी गुप्ता श्री रघुनाथ रॉय, स्टार रीयलकॉन प्राइवेट लिमिटेड और पिनेकल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड श्री नीतिन कुमार गुप्ता अपने निदेशक के माध्यम से, को उक्त मांग सूचना में उल्लेखित रूपये 3,92,89,697.12/— (भारतीय रूपये तीन करोड़ बानबे लाख नवासी हजार छह सौ सत्तानबे और बारह पैसे मात्र) की देय राशि दिनांक 18 जून 2021 और उंपरोक्त राशि, आकरिमक खर्च, लागत, शुल्क आदि पर संविदात्मक दरों पर भविष्य के ब्याज के साथ भुगतान की दिनांक तक खर्च और अर्जित और/या उक्त मांग सूचन की दिनांक से 60 दिन में वसूल की जानी है।

उपरोक्त वर्णित कर्जदार/सह—कर्जदार/गारंटर और सुरक्षा प्रदाता धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना दिनांकित 23 जून 2021 के अनुसार देय राशि का भगतान करने में विफल रहे हैं . उपरोक्त वर्णित कर्जदार /सह—कर्जदार /गारंटर और सरक्षा प्रदाता को विशेष तौरे पर और आम जनता को एतदृद्वारा आम तौर पर सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, . 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस **अगस्त के 25वें दिन वर्ष 2021** को निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर

उपरोक्त वर्णित विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर और सुरक्षा प्रदाता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन देय <mark>रूपये 3,92,89,697.12/– (भारतीय रूपये तीन</mark> करोड़ बानबे लाख नवासी हजार छह सौ सत्तानबे और बारह पैसे मात्र) की देय राशि दिनांक 18 जून 2021 राशि, आकेरिमक खर्च, लागत

शुल्क आदि पर संविदात्मक दरों पर भविष्य के ब्याज के साथ भुगतान की दिनांक तक खर्च और अर्जित की गई वसूली तक।

कर्जदार/सह—कर्जदार/गारंटर और सुरक्षा प्रदाता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभृत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

. परियोजना की समान बंधक (पंजीकृत एमओई के साथ) भूमि मापक 48,256.30 वर्ग मीटर और परियोजना पर संरचना ''एसेंशिया फेज– 1 फेज–2 और फेज–3 , ग्राम खिज़ुरीवास , तहसील तिजारा अलवर , राजस्थान पर स्थित। फेज—1 में चिन्हित 15 इकाइयों को बंधक, द्वितीय फेज— 2 में 141 इकाइयां, फेज— 3 में 381 इकाइयां, भूतल पर 31 दुकानें और परियोजन

काइयों की विस्तृत सूची जिसमें (आवेदन/बेचा/अविक्रय इकाई) शामिल हैं, का उल्लेख पीएनर्व हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी www.pnbhousing.com वेबसाइट पर भी किया गया है।

में 115 दुकाने ''एसेंशिया फेज– 1, फेज–2 और फे–3, ग्राम खिज़्रीवास, तहसील तिजारा, राजस्थाना

श्री आशिष के जिंह

स्थान : अलवर प्राधिकत अधिकारी प्रति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक: 25.08.2021